



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2010/पौष 30, 1931

No. 106]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2010/PAUSA 30, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2010

का.आ. 120(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 1349(अ), तारीख 26 मई, 2009 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के 48/700 कि.मी. से 64/500 कि.मी. (विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम सेक्शन) तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 16 जुलाई, 2009 को “दि हिन्दु” और “आन्ध्रा प्रभा” (तेलुगु) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर अत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के 48/700 कि.मी. से 64/500 कि.मी. (विजयवाड़ा- मच्छलीपटनम सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक/मण्डल का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	कृष्णा	1. गोदूरु	(1) चित्तीगुडूरु	2/1बी	निजी	नम	243.00	महन्काली सत्यनारायण और वन्नमसेट्टी सीतारत्नम
				2/1सी	निजी	नम	729.00	महन्काली सत्यनारायण और वन्नमसेट्टी सीतारत्नम
				2/1डी	निजी	नम	364.50	महन्काली सत्यनारायण और वन्नमसेट्टी सीतारत्नम
				2/2बी	निजी	नम	486.00	बेताल रामा राव वन्नमसेट्टी सीतारत्नम
				2/2सी	निजी	नम	769.50	बेताल रामा राव बेताल नागरत्नम
				3/2बी	निजी	नम	364.50	कोलुसु गोपालम दानम दया दीनम
				3/2सी	निजी	नम	526.50	कोलुसु गोपालम एररपोतु उमा
				3/3बी	निजी	नम	850.50	तट्टा वरदाचारी कोलुसु वेंकटेश्वर राव
				4/4बी	निजी	नम	405.00	कलपतपु नारायण मूर्ति मागंटी श्री रंग कुमारी
				4/4सी	निजी	नम	1053.00	कलपतपु नारायण मूर्ति गज्जल सोभनाद्री
				5/2बी	निजी	नम	607.50	रसमसेट्टी अंजय्य रसमसेट्टी वेंकट सत्यनारायण
				5/5बी	निजी	नम	324.00	रसमसेट्टी वेंकट सत्यनारायण कोलुसु पद्मावती
				5/7बी	निजी	नम	324.00	मागानी वेनुगोपाल राव
				6/2	निजी	नम	526.50	देवीनेनी नरसय्या मागन्टी कनकदुर्गा और कल्याण बाबु गार्डियन नागबूशानाम
				6/3	निजी	नम	486.00	देवीनेनी नरसय्या कोलुसु सुब्ब राव ई वेंकटेश्वर राव
				6/4	निजी	नम	202.50	देवीनेनी नरसय्या मागन्टी वम्सी बाबु - एम. गार्डियन मदर लक्ष्मी
				7/3बी	निजी	नम	202.50	कोडाली बुल्लय्या मागन्टी वेनुगोपाल राव
				7/3सी	निजी	नम	283.50	कोडाली बुल्लय्या
				7/4बी	निजी	नम	445.50	श्रीमत गडीमेल्ला रंगा चारयुलु

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				22/1बी	निजी	नम	40.50	डोकु वैकटेश्वरलु डोकु श्रीनिवास राव
				22/2बी	निजी	नम	81.00	कोनतम श्रीनिवास राव
				22/4बी	निजी	नम	40.50	कुन्देटी वैकटेश्वरामी फातिमा मुजस्थ और युनुस अली
				23/2बी	निजी	नम	40.50	देवीनेनी नागेश्वर राव पागोलु सुब्बम्मा
				23/2सी	निजी	नम	40.50	देवीनेनी नागेश्वर राव शेख गौसीया एम गार्डियन अब्दुल खलील (दादा)
				23/3बी	निजी	नम	121.50	देवीनेनी वैकट कृष्णा राव फातिमा मुजस्थ और युनुस अली
				29/1ए	निजी	नम	2389.50	द्रोनमवल्लि कुटुम्बय्य कोलुसु रंगा राव
				29/1सी	निजी	नम	283.50	द्रोनमवल्लि कुटुम्बय्य मागन्टी गोपाल कृष्ण
				29/2बी	निजी	नम	688.50	द्रोनमवल्लि बापनय्या मागन्टी गोपाल कृष्ण
				29/2सी	निजी	नम	1134.00	द्रोनमवल्लि बापनय्या के वैकटेश्वर राव
				29/2डी	निजी	नम	567.00	द्रोनमवल्लि बापनय्या डोकु नागराजु
				29/3बी	निजी	नम	1377.00	द्रोनमवल्लि कुटुम्बय्य डोकु नागराजु
				29/4बी	निजी	नम	931.50	श्रीमत तुरुमतिमल्ल रामानुजाचार्युलु डोकु नागराजु
				29/4सी	निजी	नम	2308.50	श्रीमत तुरुमतिमल्ल रामानुजाचार्युलु बच्चु वीरय्य
				29/5बी	निजी	नम	1539.00	द्रोनमवल्लि कुटुम्बय्य डोकु कुटुम्ब राव
				113/1सी1बी	निजी	शुष्क	3361.50	अन्नावज्जुल राम जोगय्या अन्नावज्जुल नान्चार वर प्रसाद और ए बी सूर्य प्रकाश
				113/1सी1ई	निजी	शुष्क	364.50	अन्नावज्जुल राम जोगय्या अन्नावज्जुल नान्चार वर प्रसाद
				113/1सी2ए	निजी	शुष्क	162.00	जोन्नलगड्डु नंदिवर्धनम अन्नावज्जुल नान्चार वर प्रसाद
				113/1सी3ए	निजी	शुष्क	81.00	डोकु पोतुराजु अन्नावज्जुल नान्चार वर प्रसाद
				113/1सी4ए	निजी	शुष्क	243.00	अन्नावज्जुल राम जोगय्या अन्नावज्जुल नान्चार वर प्रसाद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				113/1सी5ए	निजी	शुष्क	40.50	पेरीसेपोगु येसोबु अन्नावज्जुल नान्चार वर प्रसाद
				113/1सी6ए	निजी	शुष्क	40.50	वेमवरणु प्रकाशम अन्नावज्जुल नान्चार वर प्रसाद
				113/1सी7ए	निजी	शुष्क	121.50	अन्नावज्जुल राम जोगय्या अन्नावज्जुल नान्चार वर प्रसाद
				113/1सी7सी	निजी	शुष्क	81.00	अन्नावज्जुल राम जोगय्या तोटा कस्तूरि
				113/1सी7डी	निजी	शुष्क	121.50	अन्नावज्जुल राम जोगय्या रसमसेट्टि कस्तूरि
				113/1सी7ई	निजी	शुष्क	202.50	अन्नावज्जुल राम जोगय्या कोलुसु पद्म
				113/1सी7एफ	निजी	शुष्क	243.00	अन्नावज्जुल राम जोगय्या रसमसेट्टि राज्य लक्ष्मी
				113/2	निजी	शुष्क	1620.00	अन्नावज्जुल राम जोगय्या अन्नावज्जुल बाल सूर्य प्रकाश
				112/1ए	निजी	नम	324.00	एस टी जी राजामन्न चारयुलु ए वी एस लक्ष्मी
				112/2ए	निजी	नम	405.00	अन्नावज्जुल राम जोगय्या अन्नावज्जुल बाल सूर्य प्रकाश
				112/3ए	निजी	नम	162.00	एस टी वी रामानुजाचारयुलु ए वी एस लक्ष्मी
				112/4ए	निजी	नम	405.00	एस टी जी समानुजाचारयुलु अन्नावज्जुल बाल सूर्य प्रकाश
				32/1ए	निजी	नम	121.50	अन्नावज्जुल नारायण मूर्ति ए एन वर प्रसाद एंजायर
				32/2ए1	निजी	नम	81.00	अन्नावज्जुल नारायण मूर्ति अन्नावज्जुल बाल सूर्य प्रकाश
				32/2ए4	निजी	नम	81.00	अन्नावज्जुल नारायण मूर्ति अरजा हनुमन्त राव और बाबु राव
				32/2ए3	निजी	नम	81.00	अन्नावज्जुल नारायण मूर्ति रसमसेट्टी वैकट सत्यनारायण
				33/2ए	निजी	नम	243.00	द्रोनमवल्लि बापनय्या एस टी जी अनन्ताचारयुलु
				33/3ए	निजी	नम	81.00	पल्लबोतु वैकट ताता राजु
				34/2ए1	निजी	नम	121.50	पल्लबोतु वर लक्ष्मी पल्लबोतु वैकट ताता राजु
				34/2बी1	निजी	नम	40.50	पल्लबोतु सीतारामय्या पल्लबोतु वैकट ताता राजु
				35/3ए	निजी	नम	81.00	श्रीमत्तिरुमल गुडिमेल्ल वरदा चारयुलु कोल्लपल्लि वर लक्ष्मी
				15/5ए1	निजी	नम	81.00	वीरला सवित्रम्मा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				15/5बी1	निजी	नम	121.50	कोलुसु नरसिम्हम गोरिपती महालक्ष्मी और कुन्देदि कृष्णदेवी
				15/5बी3	निजी	नम	81.00	कोलुसु नरसिम्हम जोन्नलगड्डा झान्सी
				15/5बी4	निजी	नम	40.50	कोलुसु नरसिम्हम मन्ने सुजित चौधरी
				15/5बी5	निजी	नम	81.00	कोलुसु नरसिम्हम कोन्वरल नागेन्द्रबाबु
				14/1	निजी	नम	162.00	अन्नपूर्णम् कम्मिली सुरेश
				12/1ए	निजी	नम	445.50	तिरुमल वरदाचार्युलु (स्कूल ट्रस्टी) यारलगड्डा वेंकट माधवी
				12/2ए	निजी	नम	324.00	पुराणम राम कृष्ण शास्त्री कंचरल कृष्ण प्रसाद
				12/3ए	निजी	नम	324.00	अरुज लक्ष्मी नारायण और नन्दम हेमा सुन्दरी अरुजा लक्ष्मी नारायण
				12/4ए	निजी	नम	324.00	कोत्तपल्लि बल राम कृष्णय्या बच्चुल धर्मा राव
				12/5ए	निजी	नम	324.00	बच्चुल धर्मा राव
				12/6ए	निजी	नम	445.50	देवीनेनी वेंकट कृष्णय्या मागन्टी कृष्ण
				12/6सी	निजी	नम	364.50	देवीनेनी वेंकट कृष्णय्या मागन्टी राम चन्द्र राव
				11/1ए	निजी	नम	486.00	पुराणम राम कृष्ण शास्त्री कम्मिली कोटेश्वर राव
				11/1सी	निजी	नम	243.00	पुराणम राम कृष्ण शास्त्री चीदेपूडि कोटेश्वर राव
				11/1डी	निजी	नम	121.50	पुराणम राम कृष्ण शास्त्री चीदेपूडि कोटेश्वर राव
				11/1ई	निजी	नम	121.50	पुराणम राम कृष्ण शास्त्री चीदेपूडि रामलिंगेश्वर राव
				11/1एफ	निजी	नम	162.00	पुराणम राम कृष्ण शास्त्री कटकम वेंकट सुब्रम्ह
				11/1जी	निजी	नम	40.50	पुराणम राम कृष्ण शास्त्री एरपोतु सरोजीनी
				11/2ए	निजी	नम	243.00	कोडाली बुल्लय्या एरपोतु सरोजीनी
				11/2सी	निजी	नम	567.00	कोडाली बुल्लय्या तम्माबतुल सरस्वती
				11/3ए	निजी	नम	162.00	कोडाली बुल्लय्या तम्माबतुल सरस्वती

1	2	3	4	5	6	7	8	9.
				11/3सी	निजी	नम	243.00	कोडाली बुल्लय्या पुप्पल्ल रत्न कुमरि
				11/3डी	निजी	नम	850.50	कोडाली बुल्लय्या यार्लगड्डु वैकट माधवी और कंचरल वैकट प्रसाद
			(2) कोंकनारायणापालेम	35/7बी	निजी	शुष्क	769.50	जयनी चन्द्रा साहेब मागन्ती राजगोपाला राव
				36/2जी2	निजी	नम	364.50	गोरिपती वैकटेश्वरलु डोक्कु पोतुराजु
				36/2जी3	निजी	नम	121.50	गोरिपती वैकटेश्वरलु बुन्दावनम धनवन्तरी अचारी
				36/2जी2	निजी	नम	729.00	बुन्दावनम वैकटनारायणाचार्यलु
				36/3डी2	निजी	नम	688.50	बुन्दावनम श्रीनिवासाचार्यलु बी भट्टाचार्य विजय मारुती बुन्दावनम धनवन्तरी अचारी
				36/3डी3	निजी	नम	688.50	बुन्दावनम श्रीनिवासाचार्यलु बी भट्टाचार्य विजय मारुती बुन्दावनम भट्टाचार्य विजय मारुती
				36/3डी4	निजी	नम	607.50	बुन्दावनम श्रीनिवासाचार्यलु बी भट्टाचार्य विजय मारुती बुन्दावनम धनवन्तरी आचारी
				40/2ए2	निजी	नम	1458.00	बुन्दावनम वैकट नारायणाचार्यलु गोरीपति राजकिशोर यादवा और वैकटेश्वर राजकिशोर यादव
				40/7बी	निजी	नम	648.00	गोरीपति वैकट सुब्बय्य मागन्ती रमण और नागेश्वर राव
				40/8बी	निजी	नम	729.00	बुन्दावनम वैकट नारायणाचार्यलु बुन्दावनम धनवन्तरी आचारी
				41/2ए2	निजी	नम	81.00	गोरीपति मुनेश्वर राव गोरीपति रामकृष्णराजु
				45/6ए2	निजी	नम	40.50	डोक्कु सुब्बा राव गोरीपति रामा राव
				45/7ए2	निजी	नम	40.50	मागन्ती सुब्बा राव मागन्ती नागेश्वर राव
				45/8ए2	निजी	नम	121.50	डोक्कु सुब्बा राव गोरीपति रामा राव
				45/9ए2	निजी	नम	283.50	डोक्कु नरसिम्हा राव गोरीपति रामा राव
				45/9बी2	निजी	नम	81.00	डोक्कु वैकटेश्वर राव गोरीपति रामा राव
				45/9बी3	निजी	नम	486.00	डोक्कु वैकटेश्वर राव डोक्कु वैकटेश्वर राव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				54/1बी	निजी	नम	1336.50	डोकु श्री रामलु डी.एस.एस.वी.के.एल.वी. प्रसाद
				54/2बी	निजी	नम	729.00	डोकु वैकटेश्वरलु डोकु वीर वैकटेश्वर राव और डोकु गोविन्दराजुलु
				54/3बी	निजी	नम	850.50	डोकु श्री रामलु डी.एस.एस.वी.के.एल.वी. प्रसाद
				54/4बी	निजी	नम	1539.00	कोतगुन्डु सुब्बाय्य मागंटी रंगबाबु और मागंटी नागबाबु
				56/2बी	निजी	नम	202.50	गोरीपति लक्ष्मय्य गोरीपति वैकट रमण
				56/3बी	निजी	नम	526.50	कोतगुन्डु सुब्बम्म गोरीपति वैकट रमण
				61/1बी	निजी	नम	607.50	गोरीपति लक्ष्मय्य गोरीपति वैकट रमण
				61/1सी	निजी	नम	121.50	गोरीपति लक्ष्मय्य गोरीपति लक्ष्मण राजु
				61/2बी	निजी	नम	405.00	गोरीपति लक्ष्मय्य गोरीपति लक्ष्मण राजु
				82/1ए	निजी	नम	162.00	धिम्ला लक्ष्मी और बन्डारु सरोजनी कैला वैकटरत्नम
				58/1ए	निजी	नम	8.00	डोकु वैकटेश्वरलु और डोकु नान्दरम्म बाल गोपाल राव
				58/1बी	निजी	नम	40.50	डोकु वैकटेश्वरलु और डोकु नान्दरम्म डोकु वैकटेश्वरम्म
				58/1सी	निजी	नम	40.50	डोकु वैकटेश्वरलु और डोकु नान्दरम्म कोमटि संजीवरेड्डी
				58/1डी	निजी	नम	688.50	डोकु वैकटेश्वरलु और डोकु नान्दरम्म डोकु चित्रकृष्ण
				58/2ए	निजी	नम	567.00	डोकु वैकटेश्वरलु कैला वैकटरत्नम
				58/2सी	निजी	नम	364.50	डोकु वैकटेश्वरलु डोकु नरसिम्ह राजु
				58/3ए	निजी	नम	81.00	डोकु चिन बसवय्य कैला वैकटरत्नम
				58/3सी	निजी	नम	1012.50	डोकु चिन बसवय्य मागंटी सुब्बा राव और मागंटी रांजीबाबु

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				58/6ए	निजी	नम	364.50	डोकु पेद बसवय्य मागंटी नागबाबु
				58/6सी	निजी	नम	364.50	डोकु पेद बसवय्य मागंटी बाबुजी
				58/7ए	निजी	नम	526.50	डोकु नरसिहम्हाराव मागंटी बाबुजी
				58/9ए	निजी	नम	243.00	गोरीपति लक्ष्मय्य मागंटी बाबुजी
				58/9सी	निजी	नम	243.00	गोरीपति लक्ष्मय्य मागंटी सुब्बा राव
				58/9डी	निजी	नम	243.00	गोरीपति लक्ष्मय्य मागंटी राजगोपाल राव
				58/9ई	निजी	नम	283.50	गोरीपति लक्ष्मय्य मागंटी वेकटराजु
				58/9ए	निजी	नम	40.50	शैख हुसैन मागंटी नागराजु
				58/9ई	निजी	नम	81.00	शैख हुसैन अन्नम हरीरामकृष्ण
				59/2ए	निजी	नम	729.00	शैख हुसैन मागंटी नागराजु
				59/2सी	निजी	नम	810.00	शैख हुसैन मोर्ल कोटेश्वर राव
				59/2डी	निजी	नम	40.50	शैख हुसैन अन्नम हरीरामकृष्ण
				59/2एफ	निजी	नम	648.00	शैख हुसैन अन्नम हरीरामकृष्ण
			(3) गुडुरु	343/1बी	निजी	नम	40.50	गोरीपति बैरागी डोकु कुटुम्ब राव
				343/1सी	निजी	नम	81.00	गोरीपति बैरागी डोकु नान्दारय्य
				343/1डी	निजी	नम	162.00	गोरीपति बैरागी डोकु वेकटेश्वर राव
				344/2बी	निजी	नम	810.00	कोक्केरा सुब्बावम्म कोलुसु साम्राज्यम
				344/2सी	निजी	नम	40.50	कोक्केरा सुब्बावम्म पंडी श्रीराममूर्ति
				344/4बी	निजी	शुष्क	40.50	कौसु फुन्नी पंडी श्रीराममूर्ति
				349/1बी	निजी	शुष्क	162.00	कोप्पुल राय पंडी वाणी
				347/1ए	निजी	नम	364.50	पांडी वाणी
				347/1बी	निजी	नम	81.00	के.वी.वी. सुब्बा राव
				347/2बी	निजी	नम	121.50	तट्टा रंगाचार्युलु बतिन बलराम वी.एस.के.पी. रेडुय्य



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				347/3बी	निजी	नम	243.00	ईब्रहीम बैग बतिन बलराम वी.एस.के.पी. रेड्डय्य
				347/4बी	निजी	नम	324.00	मोहम्मद गालिब साहेब के.पी. रेड्डय्य
				347/5बी	निजी	शुष्क	324.00	महबुल्लि अन्दुल हारे पेरवाल जगनमोहन राव
				380/1बी	निजी	नम	121.50	पुष्पाला नागेश्वरम्म कोम्मीनेनी विजय कुमारी
				382/1ए	निजी	नम	445.50	मोहम्मद सलेहा मोहम्मद ईस्माईल
				397/1बी	निजी	नम	364.50	गोरीपति वैकटेश्वरलु पत्नी सूरम्म मागंटी नरसिम्हा राव
				397/1सी	निजी	नम	364.50	गोरीपति वैकटेश्वरलु पत्नी सूरम्म गोरीपति समु
				397/1डी	निजी	नम	364.50	गोरीपति वैकटेश्वरलु पत्नी सूरम्म गोरीपति फणी राजु
				397/1ई	निजी	नम	364.50	गोरीपति वैकटेश्वरलु पत्नी सूरम्म मागंटी गोपाल राव
				397/3बी	निजी	नम	1012.50	कोल्लीपर वैकट्राममूर्ति गोरीपति राज किशोर यादव
				397/4बी	निजी	नम	121.50	कोल्लीपर वैकट्राममूर्ति गोरीपति राज वैकटेश्वर यादव
			(4) रामराजुपालेम	2/1ए	निजी	नम	405.00	पट्टरि वैकटसुब्बम्म गोरीपति रामकृष्णराजु
				2/2ए	निजी	नम	283.50	गोरीपति वैकटेश्वरलु गोरीपति नागराजु
				2/2सी	निजी	नम	243.00	गोरीपति वैकटेश्वरलु गोरीपति राजाबाबु
				2/2डी	निजी	नम	243.00	गोरीपति वैकटेश्वरलु गोरीपति रामकृष्णराजु
				2/2ई	निजी	नम	567.00	गोरीपति वैकटेश्वरलु गोरीपति श्रीनिवासराव
				2/3ए	निजी	नम	769.50	गोरीपति वैकट सुब्बय्य गोरीपति रामबाबु
				4/2ए1	निजी	नम	202.50	डोक्कु वैकटेश्वरलु डोक्कु बाबूराव
				4/2बी1	निजी	नम	81.00	डोक्कु बाबूराव
				4/2बी3	निजी	नम	283.50	डोक्कु बाबूराव डोक्कु गोविन्द राजुलु
				4/2बी4	निजी	नम	607.50	डोक्कु बाबूराव डोक्कु पोतुराजु
				4/1ए	निजी	नम	648.00	निडदबोलु/अन्नपूर्णा राव डोक्कु गोविन्द राजुलु

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5/1ए	निजी	नम	1174.50	गोरीपति वैकट सुब्बय्य
				6/2ए	निजी	नम	324.00	डोक्कु गोविन्द राजुलु गोरीपति वैकट सुब्बय्य
				6/2सी	निजी	नम	405.00	डोक्कु गोविन्द राजुलु
				9/1ए	निजी	नम	405.00	डोक्कु श्री रामुलु डोक्कु गोविन्द राजुलु
				9/1सी	निजी	नम	405.00	डोक्कु गोविन्द राजुलु डी.एस.एस.वी.के.एल.वी. प्रसाद
				9/5ए	निजी	नम	405.00	डोक्कु श्री रामुलु डोक्कु वैकटेश्वरलु डी.एस.एस.वी.के.एल.वी. प्रसाद
				9/4ए	निजी	नम	1417.50	पेनुबोलु अम्म गोरीपति हरी बाबु
				35/1ए	निजी	नम	769.50	देवी कृष्णमचार्युलु देवी सत्यनारायणाचार्युलु
				36/1ए	निजी	नम	1174.50	देवी कृष्णमचार्युलु पत्नी रत्तम्म देवी सत्यनारायणाचार्युलु
				38/1ए	निजी	नम	445.50	गोरीपति वैकटेश्वरलु गोले चिन्तय्या राजेन्द्रबाबु
				38/2ए	निजी	नम	324.00	गोरीपति वैकट सुब्बय्य
				38/3ए	निजी	नम	283.50	गोरीपति लक्ष्मय्य गोरीपति राम कृष्ण राजु
				38/4ए	निजी	नम	283.50	मागंटी सोमय्य
				38/4बी	निजी	नम	567.00	मागानी सोमय्य नरसिंहमा राव
				41/1ए	निजी	नम	162.00	परास ऐडुकोन्डलु परास राम कोटम्म
				41/3ए	निजी	नम	121.50	कुनापु लक्ष्मी नारायणा गोरीपति प्रभाकर राव
				41/3सी	निजी	नम	81.00	कोनपु लक्ष्मी नारायण मांगन्टी राम कृष्ण राव
				41/3डी	निजी	नम	40.50	कोनपु लक्ष्मी नारायण मागानी राम कृष्ण राव
				41/4ए	निजी	नम	41.00	डोक्कु मल्लिकार्जुनुडु बालगोपाल राव
				41/4बी	निजी	नम	40.50	डोक्कु मल्लिकार्जुनुडु दुबा वैकटेश्वरम्म डोक्कु संजीव रेड्डी
				41/4सी	निजी	नम	40.50	डोक्कु मल्लिकार्जुनुडु डोक्कु संजीव रेड्डी
				41/4डी	निजी	नम	202.50	डोक्कु मल्लिकार्जुनुडु डोक्कु चित्र कृष्ण
				41/5ए	निजी	नम	81.00	डोक्कु मल्लिकार्जुनुडु डोक्कु चित्र कृष्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				41/5बी	निजी	नम	40.50	डोक्कु मल्लिकार्जुनुडु दुबा वेंकटेश्वरम्म
				41/5सी	निजी	नम	40.50	डोक्कु मल्लिकार्जुनुडु डोक्कु/कोमटी संजीवरेड्डी
			(5) ताराकटेरु	14/2बी	निजी	नम	810.00	डोक्कु वेंकटेश्वरलु ईवनी वेंकटेश्वरलु
				14/4बी	निजी	नम	729.00	चोडिसेट्टि ऐडुकोन्दलु छोटा नान्धारय्य
				14/5बी	निजी	नम	769.50	सुथारी राजेश्वरम्म तोटा भास्कर राव
				11/1बी	निजी	नम	810.00	लिगम वेंकटेश्वर राव लिगम शिव राम प्रसाद
				11/1सी	निजी	नम	607.50	लिगम वेंकटेश्वर राव कोल्ली धनन्जय
				11/4बी	निजी	नम	769.50	सेशाम केशव स्वामी कोल्ली धनन्जय
				10/5बी	निजी	नम	1255.50	लिगम नागय्य तोटा सत्यनारायण
				7/1बी	निजी	नम	202.50	लिगम नारायण राव, सेगु सत्यनारायण
				7/2ए	निजी	नम	2470.50	लिगम पूर्णिम अडप वेंकट्रामय्य
				7/2सी	निजी	नम	243.00	लिगम पूर्णिम लिगम पुन्नय्य
				7/2डी	निजी	नम	243.00	लिगम पूर्णिम लिगम वीर राघवय्य
				18/2बी	निजी	नम	243.00	लिगम उदय लक्ष्मी
				18/2सी	निजी	नम	688.50	जन्नाल नागेश्वर राव
				18/2ई	निजी	नम	891.00	काट्रगडु श्रीनिवास राव
				18/2एफ	निजी	नम	1336.50	बंदरल कृष्णमूर्ति
				18/2डी	निजी	नम	850.50	काट्रगडु गणेश राव
				21/1बी	निजी	नम	729.00	अल्लाड वीरराघवय्य नायडु कुप्पल केशव नायडु अल्लाड नारायणस्वामी नायडु बंदरल कृष्णम्म
				21/2बी	निजी	नम	810.00	अल्लाड वीरराघवय्य नायडु कुप्पल केशव नायडु अल्लाड नारायणस्वामी नायडु बंदरल कृष्णम्म
				23/1बी	निजी	नम	891.00	अल्लाड वीरराघवय्य नायडु कुप्पल केशव नायडु बंदरल कृष्णम्म
				23/2बी	निजी	नम	324.00	कुप्पल केशव नायडु बंदरल कृष्णम्म

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				23/3बी	निजी	नम	324.00	बच्चु गोपाल नाग राजु पुष्पाल नागेश्वरम्
				23/4बी	निजी	नम	324.00	चल्लगाली रामराजु पुष्पाल नागेश्वरम्
				29/2बी	निजी	नम	850.50	पिनिसेट्टि नांचारय्य काट्रगड्ड नागेश्वर राव
				29/4बी	निजी	नम	810.00	पुष्पाल वैकटपति काट्रगड्ड वैकटाचलम
				29/5बी	निजी	नम	1093.50	काट्रगड्ड स्तय्या पुत्र वैकटेश्वर राव सेशम ब्रह्मय्य
				28/2बी	निजी	नम	729.00	चितिकिनेनी जगन्नाथ राजु तोटा पांडुरंगा राव
				28/3बी	निजी	नम	1903.50	नम्बूरि नांचारम् बंदरल वैकटेश्वर राव
				28/4बी	निजी	नम	850.50	पालमपाडु नागेश्वर राव कंचरल कोटेश्वर राव
				28/4सी	निजी	नम	283.50	पालमपाडु नागेश्वर राव वेमुल वीरास्वामी
				27/1बी	निजी	नम	283.50	पालमपाडु नागेश्वर राव वेमुल वीरास्वामी
				27/1सी	निजी	नम	364.50	पालमपाडु नागेश्वर राव मुसुनूरि सुरेश कुमार
				27/2बी	निजी	शुष्क	688.50	पालमपाडु नागेश्वर राव मुसुनूरि सुरेश कुमार
				27/3बी	निजी	शुष्क	1701.00	काट्रगड्ड वैकटेश्वर राव पिता स्तय्या मुसुनूरि सुरेश कुमार
				27/4बी	निजी	शुष्क	202.50	काट्रगड्ड नागेश्वर राव मुसुनूरि सुरेश कुमार
				36/3बी	निजी	शुष्क	810.00	काट्रगड्ड राघवय्या बंदरल वैकटेश्वर राव
				36/3सी	निजी	शुष्क	1174.50	काट्रगड्ड राघवय्या बंदरल वैकट सत्यनारायण
				36/3डी	निजी	शुष्क	1053.00	काट्रगड्ड राघवय्या कोडाती जय लक्ष्मी
				36/4बी	निजी	शुष्क	1579.50	विजयवाडा
				36/4सी	निजी	शुष्क	769.50	पैदा बाल वैकट सुब्रमण्यम
				36/4डी	निजी	शुष्क	1255.50	पैदा नाग मुरली बाल कृष्ण
				36/4ई	निजी	शुष्क	810.00	पैदा वीरा राघवय्य
				36/4एफ	निजी	शुष्क	1498.50	रवि मधुमोहन और अक्किनेनि केशवमोहन
				36/5बी	निजी	शुष्क	3888.00	कुन्नपरेड्डी राघवय्या हयनी एड्युकेशन सोसायटी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				36/7बी	निजी	शुष्क	2268.00	पूर्णिम कनकम्म मन्ने मधुसूदन राव और चेन्नूपाटि शिवलिंग प्रसाद
				36/7सी	निजी	शुष्क	405.00	पूर्णिम कनकम्म मल्लादी रुक्मिणी देवी
				53/10बी	निजी	नम	2835.00	पूर्णिम अवधानी पत्नी सीतम्म, पूर्णिम वेंकट प्रभाकर राव
				53/11बी	निजी	नम	2511.00	कुप्पम वेंकट राम सास्त्रुलु रायपूडि साईबाबु
				53/14बी	निजी	नम	526.50	कुंदेटी.सेशावतारम महाकाली सत्यानारायण
				51/4बी	निजी	शुष्क	162.00	कुंदेटी सेशावतारम नायडु अशोक कुमार
				51/5बी	निजी	नम	40.50	कुंदेटी सेशावतारम नायडु अशोक कुमार
				59/2ए	निजी	नम	283.50	पेंटेरल वेंकटेश्वर राव ऐलेटी सत्यानारायण
				59/2सी	निजी	नम	121.50	पेंटेरल वेंकटेश्वर राव गुजाल वेंकटेश्वर राव
				123/1ए	निजी	नम	162.00	पुराणम सीतम्म पुराम वेंकट प्रभाकर राव
				123/2	निजी	नम	162.00	कुप्पम वेंकट राम सास्त्रुलु कुराणम भास्कर राव
				123/3ए	निजी	नम	81.00	कुप्पम वेंकट राम सास्त्रुलु कुराणम भास्कर राव
				123/5ए	निजी	नम	324.00	कम्मिलि वेंकट रत्नम कम्मिलि सुरेश बाबु
				123/6ए	निजी	नम	81.00	कम्मिलि नारायणम्मा कम्मिलि सुरेश बाबु
				123/9ए	निजी	नम	243.00	कम्मिलि वेंकटरत्नम कम्मिलि सुरेश बाबु
				123/7ए	निजी	नम	243.00	पैला देवाधीनम कुना भास्कर राव
				123/8ए	निजी	नम	243.00	गामनी लक्ष्मय्य कोना शंकर राव
				127/1ए	निजी	नम	364.50	कुराणम सीतम्म कुराणम वेंकट प्रभाकर राव
				127/2ए	निजी	नम	162.00	तिरुमलसेटी सीतामहालक्ष्मम्मा अम्मा मल्लमपल्ली वेंकटेश्वर राव
				127/2सी	निजी	नम	162.00	तिरुमलसेटी सीतामहालक्ष्मम्मा कंचरल श्री वेंकट प्रसाद
				127/5ए	निजी	नम	81.00	कम्मिलि येशोदम्म कंचरल श्री वेंकट प्रसाद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				127/5सी	निजी	नम	162.00	कम्मिलि येशोदम्म निडुमोलु शिव कोटेश्वर राव
				127/6ए	निजी	नम	202.50	चाकली लक्ष्मुडु काट्टगडु वीर वैकटाचलम
				129/1ए	निजी	नम	121.50	मेरुगु वैकटाचलम
				129/1सी	निजी	नम	121.50	मेरुगु वैकटाचलम मेरुगु वैकट सूर्यनारायण
				129/1डी	निजी	नम	121.50	मेरुगु वैकटाचलम मेरुगु रामांजनेयुलु
				129/1ई	निजी	नम	324.00	मेरुगु वैकटाचलम पुप्पाल वैकट सुबम्म
				129/2	निजी	नम	162.00	रावूरु वैकटेश्वरम्म चिलुकूरी उमा लक्ष्मी
				129/3ए	निजी	नम	243.00	रावूरु वैकटेश्वरम्म चिलुकूरी उमा लक्ष्मी
				160/1ए	निजी	नम	364.50	मल्लदी जया सूर्य
				166/1ए	निजी	नम	243.00	वेम्पटि श्री हरी शास्त्री ऐरूपोटु राम्बाबु
				166/1सी	निजी	नम	243.00	वेम्पटि श्री हरी शास्त्री ऐरूपोटु हनुमन्त राव
				166/2ए	निजी	नम	202.50	ऐरूपोटु रामचन्द्रय्य महिनेनी श्रीनिवास राव और ऐरूपोटु राम सुब्रमण्येश्वर राव
				166/2सी	निजी	नम	40.50	ऐरूपोटु रामचन्द्रय्य जी वी रमण
				166/4ए	निजी	नम	202.50	वेम्पटि श्रीधर शास्त्री जी वी रामाना
				166/5ए	निजी	नम	202.50	ऐरूपोटु राघवय्य कोनेरु हम्पी
				166/6ए	निजी	नम	202.50	ऐरूपोटु राघवय्य कोनेरु हम्पी
				167/1ए	निजी	नम	891.00	शेशम बापनय्य शेशम पिच्चय्य
				168/1ए	निजी	नम	81.00	जक्का लक्ष्मय्य नायडु जक्का अर्जुन भास्कर राव
				168/2ए	निजी	नम	243.00	कोल्लपूडि सूर्य प्रकाश राव कोल्लपूडि नागेश्वर राव
				168/2सी	निजी	नम	445.50	कोल्लपूडि सूर्य प्रकाश राव जक्का नाग ज्योति
				168/3ए	निजी	नम	405.00	कुनपरेड्डी वीर राघवय्य नायडु सलाडी सूर्यानारायण
				168/4ए	निजी	नम	405.00	उम्मिसेट्टी वैकट्टामय्य सलाडी सूर्यानारायण
				212/1ए	निजी	नम	162.00	निडुमोलु सत्यानारायण मूर्ति बलिबोयना वासु

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				212/1सी	निजी	नम	162.00	निडुमोलु सत्यानारायण मूर्ति कोल्लपल्ली राधा कृष्ण मूर्ति
				212/1डी	निजी	नम	324.00	निडुमोलु सत्यानारायण मूर्ति चोप्पडपु रजनी कुमारी
				212/2ए	निजी	नम	405.00	पुष्पाल केशव नायडु काट्रगड नागेश्वर राव
				212/2सी	निजी	नम	202.50	पुष्पाल केशव नायडु काट्रगड नागेश्वर राव
				213/2ए	निजी	नम	1093.50	कोल्लापल्ली वीरा राघवेया, कोल्लपल्ली नाग मल्लेश्वर राव
				213/3ए	निजी	नम	1174.50	कोल्लपल्ली सुब्बय्य कालपातपु जगन्नाथ राव कोल्लपल्ली नांनारय्य
				55/3बी	निजी	शुष्क	81.00	ग्राम कंठम कनीगन्टी श्री राम चन्द्र मूर्ति
				55/3सी	निजी	शुष्क	202.50	ग्राम कंठम कनीगन्टी श्री राम चन्द्र मूर्ति
				55/1बी	निजी	शुष्क	3564.00	टैंक पुराणम वैकट प्रभाकर राव
				55/4बी एवम् सी	निजी	शुष्क	405.00	ग्राम कंठम यालती सत्यानारायण
				131/1	निजी	शुष्क	1498.50	टैंक मछलीपटनम नगरपालिका
				132/1	निजी	शुष्क	1660.50	टैंक मछलीपटनम नगरपालिका
				158/1	निजी	शुष्क	2784.50	टैंक मछलीपटनम नगरपालिका
				159/1	निजी	शुष्क	526.50	टैंक मछलीपटनम नगरपालिका
				160/1बी1	निजी	शुष्क	162.00	टैंक मछलीपटनम नगरपालिका
		2. बुंदुर	(1) एन एन गोलापालेम	239/1पी	निजी	नम	688.50	गोरीपति रम्बाबु
				240/1पी	निजी	नम	2025.00	गोरीपति वैकटेश्वरलु गोरीपति वैकट राजु गोरीपति रामाराजु पुव्वाड मधुसूदन राव गोरीपति फणि राजु डोककु मल्लिकार्जुन राव
				240/2पी	निजी	नम	202.50	डोककु मल्लिकार्जुन राव
				241/1ए1पी	निजी	नम	2916.00	गोरीपति वैकट सुब्बय्य कैला राम कृष्ण बर्डिस
				295/5पी	निजी	नम	81.00	सुरगानी कुसुम सुरगानी कुसुम राधा
				308/2एपी	निजी	नम	688.50	मन्नानी वेनुगोपाल अन्नम गोपाल कृष्ण मूर्ति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				308/1पी	निजी	नम	283.50	अन्नम गोपाल कृष्ण मूर्ति
				310/1ए-पी	निजी	नम	1012.50	डोक्कु माधवय्य डोक्कु राज गोपाल राव डोक्कु माधवी यशोधरा देवी
				311/पी	निजी	नम	891.00	मामडिबतुन वैकटेश्वर राव मामडिबतुल वैकटेश्वर राव और बर्द्रस
				312/पी	निजी	नम	486.00	नम्बूरी लक्ष्मी सुजात वेनु माधवी
				313/पी	निजी	नम	2754.00	गूडूरु माधव स्वामी मन्दिर
				314/1पी	निजी	नम	2146.50	यार्लगडु राजेन्द्र प्रसाद मानम वैकटेश्वर राव बेजवाड गांधी
				314/2	निजी	नम	2673.00	कोल्ला वैकट दुर्गा प्रसाद परास प्रसाद राव कुराकु मुरली
				317/1पी	निजी	नम	243.00	वाकमल्लु असारि नायडु नंगेगडु राज कुमारी पोलवरणु वैकटेश्वर राव घर की स्थल और रास्ता
				317/2ए-पी	निजी	नम	121.50	गोट्टिपटि नरसिम्हा राव
				317/2बी-पी	निजी	नम	40.50	चेतम अनुराधा
				317/5पी	निजी	नम	81.00	यार्लगडु राजा राव निम्मलूरि प्रसाद राव
				326/1पी	निजी	नम	121.50	मट्टा महा लक्ष्मम् मट्टा वैकटेश्वर राव मानम वैकटेश्वर राव
				326/2पी	निजी	नम	810.00	मागानी कान्ता राव यार्लगडु गांगय्य परास कुसुम पेरुल रमेश
				329/1पी	निजी	नम	324.00	मट्टा पोतुराजु गोरीपति रामचन्द्रा राव गोरीपति रामाचन्द्र राव और बर्द्रस लिंगम मोजेस
				329/2पी	निजी	नम	40.50	लिंगम मोजेस लिंगम स्वामी दास
				329/3पी	निजी	नम	121.50	लिंगम मोजेस
				329/4पी	निजी	नम	121.50	लिंगम मोजेस
				329/5पी	निजी	नम	243.00	गोरीपति राज वैकट यादव गोरीपति राज किशोर यादव
				330/2पी	निजी	नम	648.00	डोक्कु नारायण राव मामडी जगन्नाथ राव
				330/3पी	निजी	नम	162.00	डोक्कु साम्बशिव राव



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				333/3पी	निजी	नम	364.50	गोरीपति पद्मावती गोरीपति वैकटरमण
				333/4पी	निजी	नम	445.50	गोरीपति पद्मावती गोरीपति राम कृष्ण राजु गोरीपति राम्बाबु गोरीपति वैकटरमण
				425/1पी	निजी	नम	607.50	मोगिलिसेट्टी सुब्रमण्येस्वर राव
				425/3पी	निजी	नम	931.50	मट्टा वैकट सुब्रम यार्लगड्ड वैकटेश्वरलु मट्टा श्रीनिवास राव मोगिलिसेट्टी सुब्रमण्येस्वर राव यार्लगड्ड राजा राव
				425/4पी	निजी	नम	1255.50	यार्लगड्ड राजा राव यार्लगड्ड वैकट्टामय्य
				425/5	निजी	नम	1012.50	यार्लगड्ड नागय्य यार्लगड्ड वैकट्टामय्य यार्लगड्ड वीरय्य
				425/6	निजी	नम	1012.50	यार्लगड्ड वीरय्य यार्लगड्ड वैकट्टामय्य
				425/7पी	निजी	नम	121.50	यार्लगड्ड वीरय्य यार्लगड्ड वैकट्टामय्य
				425/8पी	निजी	नम	81.00	यार्लगड्ड वीर राघवलु यार्लगड्ड वीरय्य
				426/1पी	निजी	नम	810.00	यार्लगड्ड राजा राव, वीरय्य वीर राघवलु, वैकट्टामय्य
				426/2पी	निजी	नम	7330.50	यार्लगड्ड राजा राव यार्लगड्ड वीरय्य यार्लगड्ड वैकट्टामय्य यार्लगड्ड पेद वीरय्य
				426/3पी	निजी	नम	202.50	यार्लगड्ड वीरय्य यार्लगड्ड पेद वीरय्य
				426/4पी	निजी	नम	850.50	यार्लगड्ड राजा राव यार्लगड्ड वैकट्टामय्य
				427/1पी	निजी	नम	1984.50	यार्लगड्ड वीरय्य यार्लगड्ड प्रसाद पुत्र परसुरामय्य
				427/2	निजी	नम	1053.00	यार्लगड्ड वीरय्य यार्लगड्ड नागेश्वर राव
				427/3	निजी	नम	243.00	यार्लगड्ड वर प्रसाद
				427/4पी	निजी	नम	1336.50	यार्लगड्ड राजा राव यार्लगड्ड नागेश्वर राव यार्लगड्ड वीर राघवलु यार्लगड्ड प्रसाद यार्लगड्ड वैकट्टामय्य यार्लगड्ड वैकटेश्वर राव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				429/5पी	निजी	नम	324.00	यार्लगड्ड वेंकय्य बोलेम वीर ब्रह्मम
				429/9ए-पी	निजी	नम	405.00	बोलेम रामा राव बोलेम वीर ब्रह्मम
				430/1पी	निजी	नम	1863.00	यार्लगड्ड चिन वनमालय्य चिन अप्पल स्वामी, साम्बय्य, पूर्णचन्द्रय्य
				430/2	निजी	नम	1093.50	यार्लगड्ड वीरय्य यार्लगड्ड चिन अप्पलस्वामी यार्लगड्ड पोतुराजु
				430/3	निजी	नम	769.50	यार्लगड्ड वर प्रसाद
				430/4पी	निजी	नम	1822.50	जन्तु नागेश्वर राव
				430/5पी	निजी	नम	81.00	यार्लगड्ड पूर्णचन्द्रराव यार्लगड्ड साम्बय्य
				430/6पी	निजी	नम	40.50	बोलेम अर्जुन राव
				430/7	निजी	नम	1215.00	मट्टा महालक्ष्मय्य यार्लगड्ड चिन अप्पलस्वामी सुरगान रायमति
				430/8पी	निजी	नम	2308.50	सुरगानी कुसुम राधा सुरगानी पापय्य बोलेम अर्जुन राव सुरगानी रायमति
				430/9पी	निजी	नम	81.00	सुरगानी पापय्य सुरगानी रायमति
				432/6पी	निजी	नम	729.00	बोलेम अर्जुन राव बोलेम वीरब्रह्मम
				432/7पी	निजी	नम	445.50	बोलेम अर्जुन राव यार्लगड्ड राजा राव
				432/8पी	निजी	नम	526.50	यार्लगड्ड राजा राव बोलेम अर्जुन राव बोलेम वीर ब्रह्मम
				432/9	निजी	नम	810.00	बोलेम अर्जुन राव
				432/10	निजी	नम	1660.50	बोलेम अर्जुन राव बोलेम वीरब्रह्मम
				432/11	निजी	नम	405.00	बोलेम अर्जुन राव बोलेम वीरब्रह्मम
				441/1पी	निजी	नम	202.50	चिट्टाईबोम्म सुब्रमण्यम राजेश्वरम्, काजगनी सोमय्य
				441/3पी	निजी	नम	1782.00	मट्टा रंगा राव मट्टा साम्बशिव राव
				441/4पी	निजी	नम	364.50	मट्टा सीतारावम् मोडुगुमोडी वेंकट सुब्बा राव टाटा लक्ष्मी कान्तम्

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				441/5पी	निजी	नम	2835.00	मट्टा सीतारावम्भ टाटा लक्ष्मी कान्तम्भ मारगनी वेंकट सुब्बय्य मोडुगुमोडी वेंकट सुब्बा राव
				442/4पी	निजी	नम	7006.50	मट्टा नागय्या बोलेम मानिक्याल राव मट्टा वेंकटेश्वर राव मट्टा कृष्ण स्वामी कासगनी सोमय्य मट्टा वेंकटेश्वर राव
				442/5पी	निजी	नम	1458.00	मट्टा लील मागंटी वेंकटेश्वर राव मट्टा लीला
				444/3पी	निजी	नम	1377.00	बोलेम रामा राव
				444/4पी	निजी	नम	729.00	बोलेम वीर ब्रह्मम
				444/5पी	निजी	नम	243.00	बोलेम अर्जुन राव बोलेम वीर ब्रह्मम
				450/2पी	निजी	नम	1134.00	मोडुगुमोडी जलचन्द्रुडु मट्टा रंगा राव नेरुसु सूरी बाबु
				455/6पी	निजी	नम	202.50	वोरीगन्टी वेंकटेश्वर राव बुरीवी विनय कुमार
				455/7पी	निजी	नम	607.50	वोरीगन्टी वेंकटेश्वर
				455/8पी	निजी	नम	3807.00	जोन्नलगड्ड राघवलु जोन्नलगड्ड सुब्बय्य
				455/15पी	निजी	नम	931.50	कंकटाव वुय्यूरु नेरुसु प्रसाद
				455/16पी	निजी	नम	4252.50	मार्रेडु सोमय्य गोल्ला विनय कुमार
				455/17-बीपी	निजी	नम	405.00	वेमूरि विनायक चामुन्डेश्वरी देवी
				455/18पी	निजी	नम	2916.00	वेमूरि विनायक चामुन्डेश्वरी देवी
				455/19पी	निजी	नम	4050.00	मट्टा वेंकटेश्वर राव
				456/1पी	निजी	नम	769.50	गोल्ला जगदीश कुमार
				456/3ए-पी	निजी	नम	769.50	गोल्ला रामुलु गोल्ला बाबू राव
				457/5बी-पी	निजी	नम	688.50	मागंटी सान्त कुमारी पत्नी वेंकटेश्वर राव
				457/5सी-पी	निजी	नम	608.00	मागंटी सान्त कुमारी पत्नी वेंकटेश्वर राव
				457/5डी-पी	निजी	नम	608.00	पचिमोल्ल राम कृष्ण
				457/5ईपी	निजी	नम	4131.00	मागंटी वेंकटेश्वर राव पुत्र नांचारय्य गोल्ला बाबू राव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				457/6पी	निजी	नम	608.00	मागंटी वैकटय्य मागंटी सान्त कुमारी
				458/1पी	निजी	नम	41.00	जोन्नलगड्ड रामा कृष्णय्य मागंटी वैकटेश्वर राव पुत्र गंगराजु
				458/2पी	निजी	नम	9113.00	लंका अच्चय्य पेन्नीन्टी सूर्यनारायण गोल्ला जगदीश कुमार मागंटी कनकदुर्ग लंका रमेश मागंटी कनकदुर्ग पत्नी वैकटेश्वर राव
			(2) मछलीपटनम	164/1पी	निजी	शुष्क	167.04	वुदत्तु वैकट्राव श्री अन्नपूर्ण सहित कासी विश्वेश्वर स्वामी देवस्थानम और चेरुवु
				164/2पी	निजी	शुष्क	1916.25	वुदत्तु वैकट्राव श्री अन्नपूर्ण सहित कासी विश्वेश्वर स्वामी देवस्थानम और चेरुवु
				165/1पी	निजी	शुष्क	570.22	गड्डम अक्का नागय्य परिदाल मुत्थालम्म पत्नी राधा कृष्णा नागल्ल वैकटेश्वरम्म पत्नी एन.वी.वी. सत्यनारायण राव बाबु अंगटि कनका राव
				165/2एपी	निजी	शुष्क	191.50	मोगिलिसेट्टी हनुमन्त राव अंगटि कनका राव मन्नेम वेनुगोपाल राव
				165/2बीपी	निजी	शुष्क	190.26	मन्नेम कोटेश्वर राव मन्नेम वेनुगोपाल राव मोगिलिसेट्टी रमेश
				165/2सीपी	निजी	शुष्क	419.73	गड्डम अक्का नागय्य पेन्नेरु मानिक्याल राव मोगिलिसेट्टी रमेश चिलमकुर्ती राधा कृष्ण
				166/1पी	निजी	शुष्क	383.03	राजा बोम्मदेवर वैकट नरसिम्हा राव बाहदूर जमीन्दार गारु मंचिराल सरोजिनि चिलमकुर्ती राधा कृष्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				166/2पी	निजी	शुष्क	667.80	मिहे सम्पत रायडु चिलमकुर्ती राधा कृष्ण पुत्र राम मूर्ति वेमुल भोगेश्वर राव पुत्र पांडुरंगा राव कोटा श्रीनिवास राव एस.के. नागम्म पत्नी पेद बाबू साहेब एस.के. कासीम पुत्र विन मस्तान एयडेड एलिमेन्ट्री स्कूल
				191/1पी	निजी	शुष्क	1044.02	सोरगूडि लक्ष्मी देवम्म टंकाल शंकरय्य पुत्र सूर्यनारायण इस्माइल दास माथब गोरीपति ज्योतम्म पत्नी राघवय्य
				194/1पी	निजी	शुष्क	13.94	कैतेपल्ली कोटय्य कैतेपल्ली भीमय्य
				164/1पी एवम् 194/2पी	निजी	शुष्क	566.51	वुदत्तु वेंकट्राव गोरीपति लक्ष्मण राव पुत्र राघवय्य पचिगोल्ल कास्लम्म पत्नी सुब्बा राव भागन्ती दुर्गा नागेश्वरम्म पत्नी दुर्गाय्य
				194/3पी	निजी	शुष्क	588.62	चिटिकेल महालक्ष्मी बुन्दावनम केसव कृष्ण बुन्दावनम सेश शैलज वेमुला नांचारम्म पत्नी पेरय्य
				194/4पी	निजी	शुष्क	1458.16	पागोलु महालक्ष्मुडु पुत्र सुब्बारायडु वेमु नांचारम्म पत्नी पेरय्य कन्दी नागेश्वर राव पुत्र सूर्यनारायण ओरुगन्ती वेंकटेश्वर राव पिल्ला सूर्यनारायण मान्यम विजय लक्ष्मी पत्नी वेंकट दासु पडमट अनुराधा पत्नी श्रीनिवास राव

[ फा. सं. भारासप्रा/11013/01/2009-एलए/नोटिफ./पीआईयू-हैदराबाद बीओटी ]

सुमेर सिंह गुलिया, उप-सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2010

**S.O. 120(E).**— Where as by the notification of the Government of India in the then Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1349 (E), dated the 26<sup>th</sup> September, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 9 on the stretch of land from Km 48/700 to Km 64/500 (Vijayawada - Machilipatnam Section) in District Krishna in the State of Andhra Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Hindu" and "Andhra Prabha (Telugu)", both dated the 16<sup>th</sup> July, 2009, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same has been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section(2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km.48/700 to km.64/500 (Vijayawada-Bandar Section) of the National Highway No.9 in the state of Andhra Pradesh.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk/mandal	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of the land owner / Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Krishna	1. Guduru	(1) Chittiguduru	2/1B	Private	Wet	243.00	Mahankali Satyanarayan and Vannamsetty Seetharatnam
				2/1C	Private	Wet	729.00	Mahankali Satyanarayana Vannamsetty Seetharatnam
				2/1D	Private	Wet	364.50	Mahankali Satyanarayana Vannamsetty Sitaratnam
				2/2B	Private	Wet	486.00	Bethala Rama Rao Vandamsetty Seetha Ratnam
				2/2C	Private	Wet	789.50	Betala Rama Rao , Betala Nagaratnam
				3/2B	Private	Wet	364.50	Kolusu Gopalam, Danam Daya Deenam
				3/2C	Private	Wet	526.50	Kosusu Goalam, Yarrapothu Uma
				3/3B	Private	Wet	850.50	Tatta Varadachary, Kolusu Venkateswara Rao
				4/4B	Private	Wet	405.00	Kalapatapu Narayana Murthy, Maganti Sri Ranga Kumari
				4/4C	Private	Wet	1053.00	Kalapatapu Narayana Murthy, Gajjala Sobhanadri
				5/2B	Private	Wet	607.50	Rasamsetti Anjaiah, Rasamsetti Vekata Satyanarayana
				5/6B	Private	Wet	324.00	Rasamsetty Venkata Satyanarayana Kolusu Padmavathi
				5/7B	Private	Wet	324.00	Magani Venugopala Rao,
				6/2	Private	Wet	526.50	Devineni Narasaiah, Maganti Kanakadurga and Kalyan Babu G/o. Nagabushanam
				6/3	Private	Wet	486.00	Devineni Narasaiah , Kolusu Subb Rao, E. Venkateswara Rao

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				6/4	Private	Wet	202.50	Devineni Narasaiah, Maganti Vamsi Babu - M.- G/o Mother Lakshmi.
				7/3B	Private	Wet	202.50	Kodali Bullaiah, Maganti Venugopala Rao
				7/3C	Private	Wet	283.50	Kodali Bullaiah
				7/4B	Private	Wet	445.50	Srimath Gadimella Ranga Charyulu
				22/1B	Private	Wet	40.50	Dokku Venkateswarlu, Dokku Srinivasa Rao
				22/2B	Private	Wet	81.00	Konatam Srinivasa Rao
				22/4B	Private	Wet	40.50	Kundeti Venkataswamy, Fathima Mujrath & Yunus Ali
				23/2B	Private	Wet	40.50	Devineni Nageswara Rao, Pagolu Subbamma
				23/2C	Private	Wet	40.50	Devineni Nageswara Rao, Shaik Gousiya, M.G/o. Abdul Kaleel (Grand Father)
				23/3B	Private	Wet	121.50	Devineni Venkata Krishna Rao Fathima Mujrath & Yunus Ali
				29/1A	Private	Wet	2389.50	Dronamvalli Kutumbaiah, Kolusu Ranga Rao
				29/1C	Private	Wet	283.50	Dronamvalli Kutumbaiah, Maganti Gopala Krishna
				29/2B	Private	Wet	688.50	Drovanamvalli Bapanaiah, Maganti Gopala Krishna
				29/2C	Private	Wet	1134.00	Dronamvalli Bapanaiah, K. Venkateswara Rao
				29/2D	Private	Wet	567.00	Dronamvalli Bapanaiah, Dokku Nagaraju
				29/3B	Private	Wet	1377.00	Druvanamvalli Kutumbaiah, Dokku Nagaraju
				29/4B	Private	Wet	931.50	Srimath Turumatimalla Ramanujacharyulu Dokku Nagaraju



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				29/4C	Private	Wet	2308.50	Srimath Turumatimalla Ramanuja Charyulu, Batchu Veeraiah
				29/5B	Private	Wet	1539.00	Druvanvalli Kutumbaiah, Dokku Kutumba Rao,
				113/1C1B	Private	Dry	3361.50	Annavaajula Rama Jogaiah, Annavaajula Nanchara Vara Prasad & A.B. Surya Prakash
				113/1C1E	Private	Dry	364.50	Annavaajula Rama Jogaiah Annavaajulla Nanchara Vara Prasad
				113/1C2A	Private	Dry	162.00	Jonnalagadda Nandivardhanam, Annavaajula Nanchara Vara Prasad
				113/1C3A	Private	Dry	81.00	Dokku Pothuraju, Annavaajula Nanchara Vara Prasad
				113/1C4A	Private	Dry	243.00	Annavaajula Rama Jogaiah, Annavaajula Nanchara Vara Prasad
				113/1C5A	Private	Dry	40.50	Perisepogu Yesobu, Annavaajula Nanchara Vara Prasad
				113/1C6A	Private	Dry	40.50	Vemavarapu Prakasam, Annavaajula Nanchara Vara Prasad
				113/1C7A	Private	Dry	121.50	Annavaajula Rama Jogaiah, Annavaajula Nanchara Vara Prasad
				113/1C7C	Private	Dry	81.00	Annavaajula Rameajogaiah, Thota Kasturi
				113/1C7D	Private	Dry	121.50	Annavaajula Rama Jogaiah, Rasamsetti Kasturi
				113/1C7E	Private	Dry	202.50	Annavaajula Rama Jogaiah, Kolusu Padma
				113/1C7F	Private	Dry	243.00	Annavaajula Rameajogaiah Rasamsetti Raja Lakshmi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				113/2	Private	Dry	1620.00	Annavaajua Rama Jogaiah, Annavaajula Bala Surya Prakash,
				112/1A	Private	Wet	324.00	S.T.G.RajamannChar yulu,A.V.S. Lakshmi
				112/2A	Private	Wet	405.00	Annavaajula Rama Jogaiah, Annavaajula Bala Surya Prakash
				112/3A	Private	Wet	162.00	S.T.V.Ramanujachar yulu, A.V.S.Lakshmi
				112/4A	Private	Wet	405.00	S.T.G. Ramanujacharyulu, Annavaajula Bala Surya Prakash
				32/1A	Private	Wet	121.50	Annavaajula Narayana Murthy, A.N.Vara Prasad, Enjoyer
				32/2A1	Private	Wet	81.00	Annavaajula Narayana Murthy, Annavaajula Bala Surya Prakash
				32/2A4	Private	Wet	81.00	Annavaajula Narayana Murthy Arja-Hanumantha Rao & Babu Rao
				32/2A3	Private	Wet	81.00	Annavaajula Narayana Murthy Rasamsetti Venkata Satyanarayana
				33/2A	Private	Wet	243.00	Druvanamvalli Bapanaiah, S.T .G. ANANTHACHARYUL U,
				33/3A	Private	Wet	81.00	Pallabothu venkata Tata Raju
				34/2A1	Private	Wet	121.50	Pallabothu Vara Lakshmi, Pallabothu Vekata Tata Raju
				34/2B1	Private	Wet	40.50	Pallabothu Sitaramaiah, Pallabothu Vekata Tata Raju
				35/3A	Private	Wet	81.00	Srimath Tirumala Gudimella Varada Charyulu, Kollapalli Vara Lakshmi
				15/5A1	Private	Wet	81.00	Veerla Savitramma
				15/5B1	Private	Wet	121.50	Kolusu Narasimham, Goriparthi Mahalakshmi & Kundeti Krishnaveni

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				15/5B3	Private	Wet	81.00	Kolusu Narasimham, Jonnalagadda Johnsi
				15/5B4	Private	Wet	40.50	Kolusu Narasimham, Manne Sujit Chowadary
				15/5B5	Private	Wet	81.00	Kolusu Narasimham, Koancharla Nagendrababu
				14/1	Private	Wet	162.00	Annapurnamma, Kammili Suresh
				12/1A	Private	Wet	445.50	Tirumala Varadacharyulu, (School Trusty) Yaralagadda Venkata Madhavi
				12/2A	Private	Wet	324.00	Puranam Rama Krishna Sastry, Kancharla Krishna Prasad
				12/3A	Private	Wet	324.00	Arja Lakshmi narayana & Nandam Hema Sundari Arja Lakshmi Narayana
				12/4A	Private	Wet	324.00	Kothapalli Bala Rama Krishnaiah, Batchula Dharma Rao
				12/5A	Private	Wet	324.00	Batchula Dharma Rao
				12/6A	Private	Wet	445.50	Devineni Venkata Krishnaiah, Maganti Krishna
				12/6C	Private	Wet	364.50	Devineni Venkata Krishnaiah, Maganti Rama Chandra Rao
				11/1A	Private	Wet	486.00	Puranam Rama Krishna Sastry, Kammili Koteswara Rao,
				11/1C	Private	Wet	243.00	Puranam Rama Krishna Sastry, Cheedepudi Koteswara Rao
				11/1D	Private	Wet	121.50	Puranam Rama Krishna Sastry, Cheedepudi Srinivasa Rao
				11/1E	Private	Wet	121.50	Puranam Rama Krishna Sastry, Cheedepudi Rama Lingeswara Rao,
				11/1F	Private	Wet	162.00	Puranam Rama Krishna Sastry, Katakam Venkata Subbamma

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				11/1G	Private	Wet	40.50	Puranam Rama Krishna Sastry , Yarrapothu Sarojini
				11/2A	Private	Wet	243.00	Kodali Bullaiah, Yarrapothu Sarojini
				11/2C	Private	Wet	567.00	Kodali Bullaiah, Tammabattula Saraswathi,
				11/3A	Private	Wet	162.00	Kodali Bullaiah, Tammabatula Saraswathi
				11/3C	Private	Wet	243.00	Kodali Bullaiah, Puppala Ratna Kumari
				11/3D	Private	Wet	850.50	Kodali Bullaiah, Yarlagadda venkata Madhavi, and Kancharla Venkata Prasad
			(2) Kokanarayanapalem	35/7B	Private	Dry	769.50	Jayany Chanda Saheb Maganti Rajagopala Rao
				36/2G2	Private	Wet	364.50	Goriparthi Venkateswarlu, Dokku Pothuraju
				36/2G3	Private	Wet	121.50	Goriparthi Venkateswarlu Brundavanam Dhanavantari Achari
				36/2I2	Private	Wet	729.00	Brundavanam Venkatanaray anacharyulu
				36/3D2	Private	Wet	688.50	Brundavanam Srinivasacharyulu, B.Bhattacharya Vijaya Maruthi Brundavanam Dhanavantari Achari
				36/3D3	Private	Wet	688.50	Brundavanam Srinivasacharyulu, B.Bhattacharya Vijaya Maruthi, Brundavanam Bhattacharya Vijayamaruthi
				36/3D4	Private	Wet	607.50	Brundavanam Srinivasacharyulu B.Bhattacharya Vijaya Maruthi Brundavanam Dhanavantari Achari
				40/2A2	Private	Wet	1458.00	Brundavanam Venkata Narayanacharyulu, Goriparthi Rajakishore Yadava & Venkateswara Rajakishore Yadav
				40/7B	Private	Wet	648.00	Goriparthi Venkata Subbaiah,, Magani Ramana & Nageswara Rao

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				40/8B	Private	Wet	729.00	Brundavanam Venkata Narayanacharyulu, Brundavanam Dhanavantari Achari
				41/2A2	Private	Wet	81.00	Goriparthi Muneswara Rao, Goriparthi Ramakrishnaraju
				45/6A2	Private	Wet	40.50	Dokku SubbaRao Goriparthi Rama Rao
				45/7A2	Private	Wet	40.50	Maganti Subba Rao Maganti Nageswara Rao
				45/8A2	Private	Wet	121.50	Budda Saheb Goriparthi Rama Rao
				45/9A2	Private	Wet	283.50	Dokku Narasimha Rao Goriparthi rama Rao
				45/9B2	Private	Wet	81.00	Dokku Venkateswar a Rao Goriparthi Rama Rao
				45/9B3	Private	Wet	486.00	Dokku VenkateswaraRao Dokku VenkateswaraRao
				54/1B	Private	Wet	1336.50	Dokku Sri Ramulu, D.S.S.V.K.L.V.Prasa d,
				54/2B	Private	Wet	729.00	Dokku Venkateswartu, Dokku Veera Venkateswara Rao &Dokku Govindarajulu,
				54/3B	Private	Wet	850.50	Dokku Sri Ramulu D.S.S.V.K.L.V.Prasa d
				54/4B	Private	Wet	1539.00	Kothagundu Subbaiah, Maganti Rangababu & Maganti Nagababu
				56/2B	Private	Wet	202.50	Goriparthi Lakshmaiah, Goriparthi Venkata Ramana
				56/3B	Private	Wet	526.50	Kothagunga Subbamma, Goriparthi venkata Ramana
				61/1B	Private	Wet	607.50	Goriparthi Lakshmaiah, Goriparthi venkata Ramana
				61/1C	Private	Wet	121.50	Goriparthi Lakshmaiah, Goriparthi Lakshmana Raju

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				61/2B	Private	Wet	405.00	Goriparthi Lakshmaiah, Goriparthi Lakshmana Raju
				82/1A1	Private	Wet		Chimma Lakshmi & Bandaru Sarojini, Kaila Venkataratnam,
				58/1A	Private	Wet	8.00	Dokku Venkateswarlu & Dokku Nancharamma, Bala Gopala Rao
				58/1B	Private	Wet	40.50	Dokku Venkateswarlu & Dokku Nancharamma, Dubha Venkateswaramma
				58/1C	Private	Wet	40.50	Dokku Venkateswarlu & Dokku Nancharamma Komati Sanjeevareddy
				58/1D	Private	Wet	688.50	Dokku Venkateswarlu & Dokku Nancharamma, Dokku Chinakrishna
				58/2A	Private	Wet	567.00	Dokku Venkateswarlu, Kaila Venkataratnam,
				58/2C	Private	Wet	364.50	Dokku Venkateswarlu, Dokku Narasimha Raju
				58/3A	Private	Wet	81.00	Dokku China Basavaiah, Kaila Venkataratnam,
				58/3C	Private	Wet	1012.50	Dokku China Basavaiah; Maganti Subba Rao & Maganti Ranjababu
				58/6A	Private	Wet	364.50	Dokku Peda Basavaiah, Maganti Naga Babu,
				58/6C	Private	Wet	364.50	Dokku Peda Basavaiah, Maganti Babuji
				58/7A	Private	Wet	526.50	Dokku Narasimha Rao, Maganti Babuji,
				58/9A	Private	Wet	243.00	Goriparthi Lakshmaiah, Maganti Babuji

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				58/9C	Private	Wet	243.00	Goriparthi Lakshmaiah, Maganti SubbaRao
				58/9D	Private	Wet	243.00	Goriparthi Lakshmaiah, Maganti Rajagopala Rao,
				58/9E	Private	Wet	283.50	Goriparthi Lakshmaiah, Maganti Venkataraju
				58/9A	Private	Wet	40.50	Shaik Hussain, Maganti Nagaraju,
				58/9E	Private	Wet	81.00	Shaik Hussain, Annam Hariramakrishna
				59/2A	Private	Wet	729.00	Shaik Hussain, Maganti Nagaraju,
				59/2C	Private	Wet	810.00	Shaik Hussain, Morla Koteswar aRao
				59/2D	Private	Wet	40.50	Shaik Hussain, Annam Harirama Krishna
				59/2F	Private	Wet	648.00	Shaik Hussain, Annam Hariramakrishna
			(3) Guduru	343/1B	Private	Wet	40.50	Goriparthi Bhairagi, Dokku Kutumba Rao
				343/1C	Private	Wet	81.00	Goriparthi Bhairagi, Dokku Nancharaiah
				343/1D	Private	Wet	162.00	Goriparthi Bhairagi, Dokku Venkateswara Rao,
				344/2B	Private	Wet	810.00	Kokkera Subbaravamma, Kolu Samrajyam
				344/2C	Private	Wet	40.50	Kokkera Subbaravamma, Pandi Sriramamurthy
				344/4B	Private	Dry	40.50	Kousu Phunny Pandi Sriramamurthy
				349/1B	Private	Dry	162.00	Koppula Ramalakshmanma, pandi Vani
				347/1A	Private	Wet	364.50	Pandi Vani
				347/1B	Private	Wet	81.00	K.V.V. SubbaRao
				347/2B	Private	Wet	121.50	Tatta Rangacharyulu Bathina Balaram, VSK.P.Reddaiah,
				347/3B	Private	Wet	243.00	Ibrahim Baig Bathina Balaram, VSK.P.Reddaiah
				347/4B	Private	Wet	324.00	Mohammed Galib Sahab K.P.Reddaiah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				347/5B	Private	Dry	324.00	Mahababulli Abdul Hai Peravala Jaganmohana Rao
				380/1B	Private	Wet	121.50	Puppala Nageswaramma, Kommineni Vijaya Kumari
				382/1A	Private	Wet	445.50	Mohammed Saleha, Mohammed Ismail, .
				397/1B	Private	Wet	364.50	Goriparthi Venkateswarlu Wife Suramma, Maganti Narasimha Rao
				397/1C	Private	Wet	364.50	Goriparthi Venkateswarlu Wife Suramma, Goriparthi Ramu
				397/1D	Private	Wet	364.50	Goriparthi Venkateswarlu Wife Suramma, Goriparthi Phani Raju
				397/1E	Private	Wet	364.50	Goriparthi Venkateswarlu Wife Suramma, Maganti Gopala Rao
				397/3B	Private	Wet	1012.50	Kollipara Venkataramanamurth y, Goriparthi Raj Kishore Yadav
				397/4B	Private	Wet	121.50	Kollipara Venkataramanamurth y, Goriparthi Raj Venkateswara Yadav
			(4) Ramarajupalem	2/1A	Private	Wet	405.00	Patturi Venkatasubbamma, Goriparthi Ramakrishnaraju
				2/2A	Private	Wet	283.50	Goriparthi Venkateswarlu, Goriparthi Nagaraju,
				2/2C	Private	Wet	243.00	Goriparthi Venkateswarlu, Goriparthi Rajababu
				2/2D	Private	Wet	243.00	Goriparthi Venkateswarlu Goriparthi Rama Krishnaraju
				2/2E	Private	Wet	567.00	Goriparthi Venkateswarlu, Goriparthi SrinivasaRao
				2/3A	Private	Wet	769.50	Goriparthi Venkata Subaiah Goriparthi Rambabu
				4/2A1	Private	Wet	202.50	Dokku Venkateswarlu, Dokku BabuRao,



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				4/2B1	Private	Wet	81.00	Dokku Babu Rao Dokku Babu Rao
				4/2B3	Private	Wet	283.50	Dokku Babu Rao Dokku Govinda Rajulu,
				4/2B4	Private	Wet	607.50	Dokku Babu Rao, Dokku Pothuraju
				4/1A	Private	Wet	648.00	Nidadavolu Annapurna Rao, Dokku Govinda Rajulu,
				5/1A	Private	Wet	1174.50	Goriparthi Venkatasubbaiah,
				6/2A	Private	Wet	324.00	Dokku Govinda Rajulu, Goriparthi Venkatasubbaiah
				6/2C	Private	Wet	405.00	Dokku Govinda Rajulu, Dokku Govinda Rajulu
				9/1A	Private	Wet	405.00	Dokku Sri Ramulu, Dokku Govinda Rajulu,
				9/1C	Private	Wet	405.00	Dokku Govindarajulu, D.S.S.V.K.L.v.Prased
				9/5A	Private	Wet	405.00	Dokku Sri Ramulu Dokku Venkateswarlu, D.S.S.V.K.L.V.Prasa d
				9/4A	Private	Wet	1417.50	Penubothu Amma Goriparthi Hari Babu
				35/1A	Private	Wet	789.50	Devi Krishnamacharulu, Devi Satyanarayanacharyu lu
				36/1A	Private	Wet	1174.50	Devi Krishnamacharylu Wife Rattamma, Devi Satyanarayanacharyu lu,
				38/1A	Private	Wet	445.50	Goriparthi Venkateswarlu, Gole Chintaiiah, Rajendrababu.
				38/2A	Private	Wet	324.00	Goriparthi VenkataSubbaiah,
				38/3A	Private	Wet	283.50	Goriparthi Lakshmaiah, Goriparthi Rama Krishna Raju
				38/4A	Private	Wet	283.50	Maganti Somaiah,
				38/4B	Private	Wet	567.00	Maganti Somaiah, Narasimha Rao,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				41/1A	Private	Wet	162.00	Parasa Yadukondalu Parasa Rama Kotamma
				41/3A	Private	Wet	121.50	Kunapu Lakshmi Narayana Goriparthi Prabhakara Rao
				41/3C	Private	Wet	81.00	Konapu LakshmiNarayana, Manganti Rama Krishna Rao,
				41/3D	Private	Wet	40.50	Konapu Lakshmi Narayana Magani Rama Krishna Rao
				41/4A	Private	Wet	41.00	Dokku Mallikarjunudu, Balagopala Rao,
				41/4B	Private	Wet	40.50	DokkuMallikarjunudu, Duba Venkateswarama dokku Mallikarjunudu, Dokku Sanjeeva Reddy,
				41/4C	Private	Wet	40.50	Dokku Mallikarjunudu, Dokku Sanjeeva Reddy,
				41/4D	Private	Wet	202.50	Dokku Mallikarjunudu, Doku China Krishna
				41/5A	Private	Wet	81.00	Dokku Mallikarjunudu, Balagopala Rao,
				41/5B	Private	Wet	40.50	Dokku Mallikarjunudu, Duba Venkateswaramma,
				41/5C	Private	Wet	40.50	Dokku Mallikarjunudu, Dokku /Komati Sanjeevareddy.
			(5) Tarakaturu	14/2B	Private	Wet	810.00	Dokku Venkateswarlu, Eevani Venkateswarlu
				14/4B	Private	Wet	729.00	Chodisetty Yadukondalu, Chota Nancharaiah,
				14/5B	Private	Wet	769.50	Suthari Rajeswaramma, Thota Bhaskara Rao
				11/1B	Private	Wet	810.00	Lingam Venkateswara Rao, Lingam Siva Rama Prasad,
				11/1C	Private	Wet	607.50	LingamVenkateswara Rao, kOlli Dhananjaya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				11/4B	Private	Wet	769.50	Sesham Kesava Swamy, Kolli Dhananjaya
				10/5B	Private	Wet	1255.50	Lingam Nagaiah, Thota Satyanarayana
				7/1B	Private	Wet	202.50	
				7/1B	Private	Wet	2470.50	Lingam Narayana Rao, Segu Satyanarayana,
				7/2A	Private	Wet	2470.50	Lingam Punnamma, Adapa Venkataramaiah
				7/2C	Private	Wet	243.00	Lungam Punnamma, Lingam Punnaiah,
				7/2D	Private	Wet	243.00	Lingam Punamma, Lingam Veera Raghavaiah,
				18/2B	Private	Wet	243.00	Lingam Udaya Lakshmi
				18/2C	Private	Wet	688.50	Janjala Nageswar aRao
				18/2E	Private	Wet	891.00	Katragadda Srinivasa Rao
				18/2F	Private	Wet	1336.50	Bandarla KrishnaMurthy
				18/2D	Private	Wet	850.50	Katragadda Ganesh Rao
				21/1B	Private	Wet	729.00	Allada Veeraraghavaiah Naidu, Kuppala Kesava naidu, Alada Narayanaswamy Naidu, Bandrala Krishnamma.
				21/2B	Private	Wet	810.00	Allada Veeraraghavaiah Naidu, Kuppala Kesava naidu, Alada Narayanaswamy Naidu, Bandrala Krishnamma.
				23/1B	Private	Wet	891.00	Allada Veeraraghavaiah Naidu, Kuppala Kesava naidu, Bandrala Krishnamma.
				23/2B	Private	Wet	324.00	Kuppala Kesava naidu, Bandrala Krishnamma.
				23/3B	Private	Wet	324.00	Batchu Gopala Naga Raju, Puppala Nageswaramma,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				23/4B	Private	Wet	324.00	Challagali Ramaraju, Puppala Nageswaramma,
				29/2B	Private	Wet	850.50	Piniseti Nancharaiah, Katragadda Nageswara Rao
				29/4B	Private	Wet	810.00	Puppala Venkatapathi, Katragadda Venkatachalam
				29/5B	Private	Wet	1093.50	Katragadda Rattaiah Son Venkatgeswara Rao Sesham Brahmaiah,
				28/2B	Private	Wet	729.00	Chitikineni Jagannadha Raju, Thota Panduranga Rao
				28/3B	Private	Wet	1903.50	Namburi Nancharamma, Bandrala Venkateswar aRao,
				28/4B	Private	Wet	850.50	Palampadu Nageswar aRao, Kancharla Koteswar aRao
				28/4C	Private	Wet	283.50	Phalampadu Nageswara Rao Vemula Veeraswamy
				27/1B	Private	Wet	283.50	Palampadu Nageswara Rao, Vemula Veeraswamy
				27/1C	Private	Wet	364.50	Palampadu Nageswar aRao, Musunuri Suresh Kumar
				27/2B	Private	DRY	688.50	Palampadu Nageswar aRao Musunuru Suresh Kumar,
				27/3B	Private	DRY	1701.00	Katragadda Venkateswara Rao, father Rattaiah, Musunuri Suresh Kumar
				27/4B	Private	DRY	202.50	Katragadda Nageswara Rao, Musunuri Suresh Kumar,
				36/3B	Private	DRY	810.00	Katragadda Raghavaiah, Badrula Venkateswar aRao
				36/3C	Private	DRY	1174.50	Katragadda Ragiavahai, Bandrala Venkata Satyanarayana
				36/3D	Private	DRY	1053.00	Katragadda Ragiavaiah, Kodali Jaya Lakshmi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				36/4B	Private	DRY	1579.50	Vijayawada
				36/4C	Private	DRY	769.50	Paida Bela Venkata Subrahmanyam,
				36/4D	Private	DRY	1255.50	Paida Naga Murali Bela Krishna
				36/4E	Private	DRY	810.00	Paida Veera Raghavaiah,
				36/4F	Private	DRY	1498.50	Ravi Madhumohan & Akkineni Kesavamohan
				36/5B	Private	DRY	3888.00	Kunapareddy Raghavaiah, Hyny Education Society
				36/7B	Private	DRY	2268.00	Puranam Kanakamma; Manne Madhusudhana Rao and Chennupati Sivalinga Prasad
				36/7C	Private	DRY	405.00	Puranam Kanakamma, Malladi Rukmini Devi,
				53/10B	Private	Wet	2835.00	Puranam Avadhani, Wife Sitamma, Puranam Venkata Prabhakara Rao
				59/11B	Private	Wet	2511.00	Kuppam Venkata Rama Sastrulu, Rayapudi Saibabu
				53/14B	Private	Wet	526.50	Kundeti Seshavatharam, Mahankali Satyanarayana,
				51/4B	Private	DRY	162.00	Kundeti Seshavatharam, Naidu Ashok Kumar
				51/5B	Private	Wet	40.50	Kundeti Seshavatharam, Naidu Ashok Kumar.
				59/2A	Private	Wet	283.50	Penteria Venkateswara Rao; Yeleti Satyanarayana
				59/2C	Private	Wet	121.50	Pentrala Venkateswar aRao, Gajula venkateswar aRao,
				123/1A	Private	Wet	162.00	Puranam Seetamma, Purama Venkata Prabhaka Rao
				123/2	Private	Wet	162.00	Kuppam Venkata Rama Sastrulu, Kuranam Bhaskara Rao,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				123/3A	Private	Wet	81.00	Kuppam Venkata Rama Sastrylu, Kuranam Bhaskara Rao
				123/5A	Private	Wet	324.00	Kammili Venkata Ratnam, Kammili Suresh Babu
				123/6A	Private	Wet	81.00	Kammili Narayanamma, Kammili Suresh Babu
				123/9A	Private	Wet	243.00	Kammili Venkataratnam Kammili Sursh Babu
				123/7A	Private	Wet	243.00	Paila Daivadeenam Kuna Bhaskara Rao
				123/8A	Private	Wet	243.00	Gamani Lakshmaiah, Kona Sankara Rao
				127/1A	Private	Wet	364.50	Kuranam Seetamma, Kuranam Venkata prabhakar Rao
				127/2A	Private	Wet	162.00	Tirumalasetty Seetamahalakshamma, Mallampalli Venkateswara Rao
				127/2C	Private	Wet	162.00	Tirumalasetty Seetamahalakshamma Kancharla Sri Venkata Prasad,
				127/5A	Private	Wet	81.00	Kammili Yesodamma, Kancharla Sri Venkata Prasad
				127/5C	Private	Wet	162.00	Kammili Yesodamma, Nidumolu Siva Koteswara Rao
				127/6A	Private	Wet	202.50	Chakali Lakshmudu, Katragadda Veera Venkataachalam
				129/1A	Private	Wet	121.50	Merugu Venkatachalam,
				129/1C	Private	Wet	121.50	Merugu Venkatachalam, Merugu Venkata suryanarayana,
				129/1D	Private	Wet	121.50	Merugu Venkatachalam, Merugu Ramanjaneyulu,
				129/1E	Private	Wet	324.00	Merugu Venkatachalam, Puppala Venkata Subbamma,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				129/2	Private	Wet	162.00	Ravuru Venkateswaramm Chilukuri Uma Lakshmi,
				129/3A	Private	Wet	243.00	Ravuri Venkateswaramm, Chilukuri Uma Lakshmi
				160/1A1	Private	Wet	364.50	Malladi Jaya Surya
				166/1A	Private	Wet	243.00	Vempati Sri Hari Sastry Yerrapothu Rambabu
				166/1C	Private	Wet	243.00	Vempati Sri Hari Sastry Yerrapothu Hanumantha Rao
				166/2A	Private	Wet	202.50	Yerrapothu Ramachandraiah, Maddineni Srinivasa Rao & Yerrapothu Ramasubrahmaneyeswar Rao
				166/2C	Private	Wet	40.50	Yerrapothu Ramachandraiah, G.V.Ramana
				166/4A	Private	Wet	202.50	Vempati Sridhara Sastry G.V.Ramana
				166/5A	Private	Wet	202.50	Yerrapothu Raghavaiah, Koneru Hampi,
				166/6A	Private	Wet	202.50	Yerrapothu Raghavaiah, Koneru Hampi
				167/1A	Private	Wet	891.00	Sesham Bapanaiah, Sesham Pitchaiah,
				168/1A	Private	Wet	81.00	Jakka Lakshmaiah Naidu, Jakka ArjunaBhaskara Rao
				168/2A	Private	Wet	243.00	Kollapudi Surya Prakasa Rao, Kollapudi Nageswar aRao
				168/2C	Private	Wet	445.50	Kollapudi Surya Prakasa Rao, Jakka Naga jyothi,
				168/3A	Private	Wet	405.00	Kunapareddi Veera Raghavaiah Naidu, Saladi Suryanarayana,
				168/4A	Private	Wet	405.00	Uummisetti Venkataramaiah, Saladi Suryanarayana,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				212/1A	Private	Wet	162.00	Nidumolu Satyanarayana Murthi, Baliboyana Vasu
				212/1C	Private	Wet	162.00	Nidumolu Satyanarayana Murthi, Kollapalli Radha Krishna Murthi,
				212/1D	Private	Wet	324.00	Nidumolu Satyanarayana Murthi, Choppadapu Rajani Kumari
				212/2A	Private	Wet	405.00	Puppala Kesava Naidu, Katragadda Nageswara Rao
				212/2C	Private	Wet	202.50	Puppala Kesavanaidu, Katragadda Nageswara Rao
				213/2A	Private	Wet	1093.50	Kollapali Veera Raghaviaha, Kollapalli Naga Malleswar aRao.
				213/3A	Private	Wet	1174.50	Kollapalli Subbaiah, Kalapatapu Jaganadha Rao Kollapalli Nancharaiah
				55/3B	Govt.	Dry	81.00	Grama Kantham, Kaniganti Sri Rama Chandra murthi
				55/3C	Govt.	Dry	202.50	Grama Kantham, Kaniganti Sri Rama Chandra murthi
				55/1B	Govt.	Dry	3564.00	Tank, Puranam Venkata Prabhakara Rao
				55/4B&C	Govt.	Dry	405.00	Grama Kantham, Yalati Satyanarayana
				131/1	Govt.	Dry	1498.50	Tank Machilipatnam Municipality
				132/1	Govt.	Dry	1660.50	Tank, Machilipatnam Municipality
				158/1	Govt.	Dry	2794.50	Tank, Machilipatnam Municipality
				159/1	Govt.	Dry	526.50	Tank, Machilipatnam Municipality
				160/1B1	Govt.	Dry	162.00	Tank, Machilipatnam Municipality.
		2. Bandar	(1) S.N.Gollapalem	239/1p	Private	Wet	688.50	Gorriparthi Rambabu



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				240/1p	Private	Wet	2025.00	Gorriparthi Venkateswarlu Gorriparthi Venkata Raju Gorriparthi Ramaraju, Puvvada Madhusudhana Rao Goriparthi Phani Raju, Dokku Mallikarjuna Rao
				240/2P	Private	Wet	202.50	Dokku Mallikarjuna Rao
				241/1A1P	Private	Wet	2916.00	Gorriparthi Venkata Subbaiah, Kaila Rama Krishna Brothers
				295/5P	Private	Wet	81.00	Suragani Kusuma, Suragani Kusuma Radha
				308/2AP	Private	Wet	688.50	Mangani Venugopal, Annam Gopala Krishna Murthy
				308/1P	Private	Wet	283.50	Annam Gopala Krishna Murthi Annam Gopala Krishna Murthi
				310/1AP	Private	Wet	1012.50	Dokku Madhavai, Dokku Raja Gopala Rao, Dokku Madhavi, Yasodhara Devi
				311/P	Private	Wet	891.00	Mamadibathuna Venkateswara Rao, Mamadibatula Venkateswara Rao & Brothers
				312/P	Private	Wet	488.00	Namburi Lakshmi Sujatha, Venu Madhavi
				313/P	Private	Wet	2754.00	Guduru Madhava Swmay Temple
				314/1P	Private	Wet	2146.50	Yarlagadda Rajendra Prasad, Manam Venkateswara Rao, Bezawada Gandhi
				314/2	Private	Wet	2673.00	Kolla Vejkata Durga Prasad, Parasa Prasada Rao, Kuraku Murali

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				317/1P	Private	Wet	243.00	Vakamallu Asari Naidu, Nangegadda Raja kumari, Polavarapu Venkateswara Rao, House Site and Road
				317/2A-P	Private	Wet	121.50	Gottipati Narasimha Rao,
				317/2B-P	Private	Wet	40.50	Chetam Anuradha
				317/5P	Private	Wet	81.00	Yaralagadda Raja Rao, Nimmaluri Prasada Rao
				326/1P	Private	Wet	121.50	Matta Maha Lakshmamma , Matta Venkateswara Rao, Manam Venkateswara Rao
				326/2P	Private	Wet	810.00	Magani Kantha Rao, Yarlagadda Gangiah , Parasa Kusuma, Perla Ramesh
				329/1P	Private	Wet	324.00	Matta Pothuraju , Goriparthi Ramachandra Rao Goriparthi Ramachandra Rao & Brothers, Lingam Mojes,
				329/2P	Private	Wet	40.50	Lingam Mojes , Lingam Swamy Dass, Lingam Mojes
				329/3P	Private	Wet	121.50	Lingam Mojes
				329/4P	Private	Wet	121.50	Lingam Mojes
				329/5P	Private	Wet	243.00	Goriparthi Raja Venkata Yadav, Goriparthi Raj Kishore Yadav
				330/2P	Private	Wet	648.00	Dokku Narayana Rao, Mamadi Jagannadha Rao
				330/3P	Private	Wet	162.00	Dokku Sambasiva Rao
				333/3P	Private	Wet	364.50	Goriparthi Padmavathi, Goriparthi venkataramana

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				333/4P	Private	Wet	445.50	Goriparthi Padmavarhi, Goriparthi Rama KrishnaRaju, Goriparthi Rambabu, Goriparthi Ve1nkataramana
				425/1P	Private	Wet	607.50	Mogiliseti Subrahmanyeswara Rao, Mogiliseti Subrahmanyeswar aRao
				425/3P	Private	Wet	931.50	Matta Vnkata Subbamma, Yarlagadda Venkateswarlu, Matta Srinivasa Rao, Mogiliseti Subrahmanyeswara Rao, Yarlagadda Raja Rao
				425/4P	Private	Wet	1255.50	Yarlagadda Raja Rao , Yarlagadda Vekatammaiah
				425/5	Private	Wet	1012.50	Yarlagadda Nagaiah, Yarlagadda Venkatammaiah, Yarlagadda Veeraiah.
				425/6	Private	Wet	1012.50	Yarlagadda Veeraiah, Yarlagadda venkatammaiah
				425/7P	Private	Wet	121.50	Yarlagadda Veeraiah Yarlagadda Venkatammaiah
				425/8P	Private	Wet	81.00	Yarlagadda Veera Raghavulu, Yarlagadda Veeraiah
				426/1P	Private	Wet	810.00	Yarlagadda Raja Rao, Veeraiah, Veera Raghavulu, Venkataramaiah
				426/2P	Private	Wet	7330.50	Yarlagadda Raja Rao, Yarlagadda Veeraiah, Venkataramaiah, Yarlagadda Peda Veeraiah
				426/3P	Private	Wet	202.50	Yarlagadda Veeraiah, Yarlagadda Peda Veeraiah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				426/4P	Private	Wet	850.50	Yarlagadda Raja Rao, Yarlagadda Venkataramaiah
				427/1P	Private	Wet	1984.50	Yarlagadda Veeraiah, Yarlagadda Prasad S/o. Parusuramaiah,
				427/2	Private	Wet	1053.00	Yarlagadda Veeraiah, Yarlagadda Nageswara Rao
				427/3	Private	Wet	243.00	Yarlagadda Vara Prasad
				427/4P	Private	Wet	1336.50	Yarlagadda Raja Rao, Yarlagadda Nageswara Rao Yarlagadda Veera Raghavulu Yarlagadda Prasad Yarlagadda Venkataramaiah, Yarlagadda Vnkateswara Rao
				429/5P	Private	Wet	324.00	Yarlagadda Venkaiah, Bolem Veera Brahman
				429/9A-P	Private	Wet	405.00	Bolem Rama Rao , Bolem Veera Brahman
				430/1P	Private	Wet	1863.00	Yarlagadda China Vanamalaiah, China Appala swamy, Sambaiah, Purnachandraiah
				430/2	Private	Wet	1093.50	Yarlagadda Veeraiah, Yarlagadda China Appalaswamy, Yarlagadda Pothuraju
				430/3	Private	Wet	769.50	Yarlagadda Vara Prasad
				430/4P	Private	Wet	1822.50	Jannu Nageswara Rao
				430/5P	Private	Wet	81.00	Yarlagadda Purnachandra Rao, Yarlagadda Sambaiah
				430/6P	Private	Wet	40.50	Bolem Arjuna Rao
				430/7	Private	Wet	1215.00	Matta Mahalakshmaiah, Yarlagadda China Appalaswamy, Suragana Rayamathi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				430/8P	Private	Wet	2308.50 Suragani Kusuma Radha , Suragani Papaiah Bolem Ajuna Rao, Suragani Rayamathi
				430/9P	Private	Wet	81.00 Suragani Papaiah, Suragani Rayamathi
				432/6P	Private	Wet	729.00 Bolem Arjuna Rao,Bolem Veerabrahmam,
				432/7P	Private	Wet	445.50 Bolem Arjuna Rao, Yarlagadda Raja Rao
				432/8P	Private	Wet	526.50 Yarlagadda raja Rao, Bolem Arjuna Rao, Bolem Veera Brahmam
				432/9	Private	Wet	810.00 Bolem Arjuna Rao
				432/10	Private	Wet	1660.50 Bolem Arjuna Rao, Bolem Veera Brahmam
				432/11	Private	Wet	405.00 Bolem ArjunaRao, Bolem Veera brahmam,
				441/1P	Private	Wet	202.50 Chittaibomma Subrahmanyam Rajeswaramma, Kajagani Somaiah
				441/3P	Private	Wet	1782.00 Matta Ranga Rao, Matta Sambasiva Rao. Matta Sambasiva Rao
				441/4P	Private	Wet	364.50 Matta Sitharavamma, Modugumodi Venkata Subba Rao, Tata Lakshmi Kanthamma, Modigumodi Venkata Subba Rao
				441/5P	Private	Wet	2835.00 Matta Sitaramaiah, Tata Lakshmi Kanthamma Maragani Venkata Subbaiah, Tata Lakshmi Kanthamma , Modugumodi Venkata Subba Rao
				442/4P	Private	Wet	7006.50 Matta Nagaiah Bolem Manikyala Rao, Matta VenkateswaraRao, Matta Krishna Swamy  Kasagani Somaiah, Matta Venkateswar aRao

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				442/5P	Private	Wet	1458.00	Matta Leela , Maganti Venkateswara Rao, Matta Leela
				444/3P	Private	Wet	1377.00	Bolem Rama Rao
				444/4P	Private	Wet	729.00	Bolem Veera Brahmam
				444/5P	Private	Wet	243.00	Bolem Arjuna Rao, Bolem Veerabrahmam,
				450/2P	Private	Wet	1134.00	Modugumodi Jalachandrudu, Matti Ranga Rao, Nerusu Suri Babu
				455/6P	Private	Wet	202.50	Voriganti Venkateswar aRao, Vurivi Vinaya Kumar Voriganti Venkateswara Rao
				455/7P	Private	Wet	607.50	Voriganti Venkateswara Rao
				455/8P	Private	Wet	3807.00	Jonnalagadda Raghavalu, Jonnalagadda Subbaiah
				455/15P	Private	Wet	931.50	Kankatava Vuyyuru , Nerusu Prasad
				455/16P	Private	Wet	4252.50	Marreedu Somaiah, Golla Vinaya Kumar,
				455/17-BP	Private	Wet	405.00	Vemuri Vinaya Chamundeswari Devi
				455/18P	Private	Wet	2916.00	Vemuri Vijaya Chamundeswari Devi
				455/19P	Private	Wet	4050.00	Matta VenkateswaraRao
				456/1P	Private	Wet	769.50	Golla Jagadeesh Kumar
				456/3A-P	Private	Wet	769.50	Golla Ramulu, Golla Babu Rao,
				457/5B-P	Private	Wet	688.50	Maganti Santha Kumari, W/o Venkateswara Rao
				457/5C-P	Private	Wet	608.00	Maganti Santha Kumari, Wife of Venkateswara Rao
				457/5D-P	Private	Wet	608.00	Pachigolla Rama Krishna
				457/5EP	Private	Wet	4131.00	Maganti VenkateswaraRao, S/o Nancharaiah, Golla Babu Rao
				457/6P	Private	Wet	608.00	Maganti Venkaiah, Magani Santha Kumari
				458/1P	Private	Wet	41.00	Jonnalagadda Rama Krishnaiah, MagantiVenkateswar aRao, S/o Gangaraju

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				458/2P	Private	Wet	9113.00	Lanka Atchalaiah, Penninti Suryanarayana, Golla Jagadeesh Kumar, Maganti Kanakadurga Lanka Ramesh, Maganti Kanakadurga W/o Venkateswar aRao
			(2) Machilipatnam	164/1P	Private	DRY	167.04	Vudattu Venkatrao, Sri Annapurna Sahita Kasi Vivekswara Swami Devasthanam and Cheruvu
				164/2P	Private	DRY	1916.25	Vudattu Venkatrao, Sri Annapurna Sahita Kasi Vivekswara Swami Devasthanam and Cheruvu
				165/1P	Private	DRY	570.22	Gaddam Akka Ngaiah Paridala Mutyalamma W/o. Radha Krishna, Nagalla Venkateswaramm, W/o. N.V.V.Satya; narayan a rao Babu Angati Kanaka Rao,
				165/2AP	Private	DRY	191.50	Mogilisetti Hanumantha Rao Angati Kanaka Rao Mannem Venugopala Rao,
				165/2BP	Private	DRY	190.26	Mannem Koteswara Rao, Mannem Venugopala Rao, Mogilisetti Ramesh,
				165/2CP	Private	DRY	419.73	Gaddam Akka Ngaiah Penneru Manikyala Rao, Mogilisetti Ramesh, Chilamkurthi Radha Krishna,
				166/1P	Private	DRY	383.03	Raja Bommadevara Venkata Narasimha Rao Bahadur Jamindar Garu Manchirala Sarojini, Chilamkurthi Radha Krishna,
				166/2P	Private	DRY	667.80	Midde Samptha Rayudu, Chilamkurthi Radha Krishna, S/o. Rama Murthi Vemula Bhogeswara Rao,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
								S/o. Panduranga Rao, Kota Srinivasa Rao S.K. Nagamma, W/o. Peda Babu Sahab, S.K. Kasim, S/o. China Mastan, Aided Elementary School,
				191/1P	Private	DRY	1044.02	Soragudi Lakshmi Devamm, Tankala Sankaraiah, S/o. Suryanarayana, Ismail Dass Mathab, Goriparti jyotamma, W/o. Raghavaiah,
				194/1P	Private	DRY	13.94	Kaitepalli Kotaiah, Kaitepalli Bhimaiah,
				164/1P & 194/2P	Private	DRY	566.51	Vudattu Venkata rao Goriparti Laxmana Rao S/o. Raghavaiah, Patchigolla Kasamma, W/o. Subba rao Maganti Durga Nageswaramm, W/o. Durgaiah.
				194/3P	Private	DRY	588.62	Chitikela Mahalaxmi Brundavanam Kesava Krishna, Brundavanam Sesha Sailaja Vemula Nancharamma, W/o. Peraiah.
				194/4P	Private	DRY	1458.16	Pagolu Mahalaxmudu S/o. Subbarayudu Vemu Nancharamma, W/o. Peraiah, Kandi Nageswara Rao s/o Suryanarayana Oruganti Venkateswara Rao Pilla Suryanarayana Manyam Vijaya Laxmi W/o. venkata Dasu Padamata Anuradha W/o. Srinivasa Rao

[F. No. NHAI/11013/01/2009-LA/Notifi./PIU-Hyd. BOT]

S.S. GULIA, Dy. Secy.